



Centre of Excellence

GOVERNMENT COLLEGE SANJAULI
SHIMLA-06, H.P.

{**NATIONAL SERVICE SCHEME**}

A Report

➤ **Adopted Village**

Venue: Dummi


- “Bridging Gaps: NSS Unit’s analysis of village challenges and needs.”
- NSS unit conducted a survey on awareness about govt. schemes and highlighting the problem in their adopted village.



Venue: Sanhog

- Our volunteers educated students at Govt. High School Sanhog Uparla about cyber security and distributed 100 informative pamphlets to help them stay safe online."

And raised the quote "Hume Jaankari hai hum Surakshit hain"



Plantation Drive:

- NSS volunteers and college staff joined hands to plant 200 trees at adopted village Chamyana under the "Meri Mati Mera Desh" initiative. With collective effort, they dug holes, planted saplings, and nurtured them with care. This eco-friendly endeavor aimed to

promote greenery, reduce carbon footprint, and foster community development. The initiative strengthened the bond between the college and the village, inspiring a sense of social responsibility and environmental stewardship among the participants.



माईनेट डिजिटल समाचार

महाविद्यालय संजौली के एनएसएस स्वयंसेवियों ने "मेरी माटी मेरा देश" अभियान में दिया योगदान

शिमला, अवनतिका पामटा। उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली की एनएसएस इकाई द्वारा आज चम्पाना गाँव में पौधारोपण किया गया। संजौली के प्राचार्य डॉ भूपेन्द्र सिंह ठाकुर तथा प्रोफेसर डॉ राम लाल ठाकुर जी भी उपस्थित रहे। एनएसएस इकाई के कुल 60 स्वयंसेवियों ने इस पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। आज के दिन 200 पौधों का रोपण किया गया। स्वयंसेवियों ने वन विभाग के अधिकारियों सहित "सुराला वन क्षेत्र" (चम्पाना) में पौधारोपण किया। इस से पहले पिछले सप्ताह इकाई द्वारा महाविद्यालय के होस्टल में पौधारोपण किया गया था। जिसमें 20 स्वयंसेवियों ने भाग लिया था तथा पौधे लगाए थे। वृक्षारोपण के बुनियादी लाभों में से एक यह है कि वे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हालांकि पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर, रबर आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। हमें वृक्षों के महत्व तथा इस से मिलने वाले लाभ से अवगत करवाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जुड़ा रही है और ऐसी समस्या से उभरने के लिए पेड़ लगाना आज सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बन गया है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा घटती हुई वर्षा ऋतु की समयावधि को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण रामबाण उपाय है। वृक्षारोपण के जरिए अनावृष्टि (सूखा) और जलवायु से कम वर्षा जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली के प्राचार्य महोदय डॉ भूपेन्द्र सिंह ठाकुर ने सभी स्वयंसेवियों की सराहना की तथा वन विभाग के सभी उपस्थित फॉरेस्ट गार्ड और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ विकास नाथन और डॉक्टर कामायनी बिष्ट ने भी हमारे इस प्रकृति संरक्षण की ओर इस कदम में सहयोग दिया। प्राचार्य ने हम सभी को यही प्रेरणा दी की हम आगे भी इसी तरह कार्य करें।

News Himachal
A New Voice Of New Himachal

9 August 2023 @ newshimachalofficial

महाविद्यालय संजौली की एनएसएस इकाई द्वारा किया गया इसी महीने में दूसरी बार पौधारोपण।



उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली की एनएसएस इकाई द्वारा आज चम्पाना गाँव में पौधारोपण किया गया। संजौली के प्राचार्य डॉ भूपेन्द्र सिंह ठाकुर तथा डॉ राम लाल ठाकुर जी भी उपस्थित रहे। एनएसएस इकाई के कुल 60 स्वयंसेवियों ने इस पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। आज के दिन 250 पौधों का रोपण किया गया। पिछले सप्ताह इकाई द्वारा महाविद्यालय के होस्टल में पौधारोपण किया गया था। जिसमें 30 स्वयंसेवियों ने भाग लिया था तथा पौधे लगाए थे। वृक्षारोपण के बुनियादी लाभों में से एक यह है कि वे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हालांकि पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर, रबर आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। हमें वृक्षों के महत्व तथा इस से मिलने वाले लाभ से अवगत करवाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की

समस्या से जुड़ा रही है और ऐसी समस्या से उभरने के लिए पेड़ लगाना आज सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बन गया है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा घटती हुई वर्षा ऋतु की समयावधि को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण रामबाण उपाय है। वृक्षारोपण के जरिए अनावृष्टि (सूखा) और जलवायु से कम वर्षा जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली के प्राचार्य महोदय डॉ भूपेन्द्र सिंह ठाकुर ने सभी स्वयंसेवियों की सराहना की तथा वन विभाग के सभी उपस्थित फॉरेस्ट गार्ड और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ विकास नाथन और कामायनी बिष्ट ने भी हमारे इस प्रकृति संरक्षण की ओर इस कदम में सहयोग दिया। प्राचार्य ने हम सभी को यही प्रेरणा दी की हम आगे भी इसी तरह हम कार्य करें।



•Volunteers visited our Adopted village Chamyana and started the plantation week.

•Huge fire outbreaks have also affected the village. Volunteers visited the affected area and planted 100 trees in order to restore the glory it once holds and to compensate the damage.



Venue: Banedi

- **Volunteers visited Banedi village and launched the Campaign "Ek Ped Maa Ke Naam".**
- **Under this campaign volunteers planted each tree as a tribute to their mother, and planted 150 trees.**
- **Children of Govt. Primary School Banedi also participated in this campaign and with the help of volunteers planted trees to give tribute to their mothers as well as mother Earth.**

- **Volunteers continued the "Ek Ped Maa Ke Naam" Campaign and again planted 50 trees in Banedi village.**




COMMUNITY FEEDBACK

- This report emphasised on one of the targets of NSS to foster community participation and create social awareness. The NSS Unit of Govt. College Sanjauli conducted a comprehensive survey during this session (2022-25) in our adopted village Dummi, Shimla. The purpose of the survey was to assess the activities conducted by NSS Unit in the village and to identify from the community the feedback on key issues, which are related to awareness on government schemes and overall development of the village.

The Survey focus on following areas:

1. Community contribution by NSS
2. Awareness of Govt. Schemes
3. Expectation from NSS Unit in the future

In this survey more than 30 people of the village gave their feedback about the NSS Unit and their programmes. Also, people discussed the major problems in their village. The feedback collected from the survey highlights the positive impact of the NSS Unit has had on the village's social development. However, there is still work to be done in terms of enhancing the villagers' understanding and access to government welfare programmes. The feedback provided will help shape future initiatives that NSS pursues.



NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
Pradhan Mantri Jal Shreni Mission

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Water conservation and road repairs and local health care and electricity and street lights required. water required.

• Plastering
• Road Repairs
• Health Camps
• Educational Programmes
• Awareness Campaigns
• Other Initiatives: Road Repairs, systematic roads, light fittings.

How much do you rate the performance of the Gram Panchayat in addressing your village's needs? (Please Tick/Mark/Write)

What improvements do you think the Gram Panchayat should make?
Water conservation and road repairs required for transportation and walking.

Do you feel that the Gram Panchayat is responsive to your concerns? Yes/No

Additional Comments: Water conservation regularly done for water.

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>Mr. Rishi Sharma</u>	<u>42</u>	<u>Female</u>	<u>+2</u>	<u>99721-8782</u>	<u>NS</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
LAWS, SUPPLY, HEALTH, EDUCATION OF PEOPLE

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
LAWS, SUPPLY

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
Pradhan Mantri Jal Shreni Mission

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
Everything is good, but we need some improvement and safety in our village.

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>Suma Sharma</u>	<u>15</u>	<u>Female</u>	<u>8th</u>	<u>98598-28501</u>	<u>Pradhan</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
N/A

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
Ujjwala, Aarogya, Pradhan Scheme

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Water supply, electricity supply, Garbage disposal.

• Plastering
• Road Repairs
• Health Camps
• Educational Programmes
• Awareness Campaigns
• Other Initiatives:

How much do you rate the performance of the Gram Panchayat in addressing your village's needs? (Please Tick/Mark/Write)

What improvements do you think the Gram Panchayat should make?
N/A

Do you feel that the Gram Panchayat is responsive to your concerns? Yes/No

Additional Comments:

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>Pranav Kumar</u>	<u>58</u>	<u>M</u>	<u>12</u>	<u>91489-39337</u>	<u>NS</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
Water supply, electricity, garbage disposal.

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
Electricity, water supply and filled by handpump

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
Water supply, electricity, garbage disposal.

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
Electricity, water supply and filled by handpump

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>Bhishma Chauhan</u>	<u>22</u>	<u>Female</u>	<u>+2</u>	<u>91165-54604</u>	<u>NS</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
1. पंचायत
2. किसान सम्मान निधि उज्ज्वल योजना

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

1. पंचायत की शरयत

• Plastering
• Road Repairs
• Health Camps
• Educational Programmes
• Awareness Campaigns
• Other Initiatives:

How much do you rate the performance of the Gram Panchayat in addressing your village's needs? (Please Tick/Mark/Write)

What improvements do you think the Gram Panchayat should make?

Do you feel that the Gram Panchayat is responsive to your concerns? Yes/No

Additional Comments:

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>Sh. Lata Sharma</u>	<u>40</u>	<u>Female</u>	<u>+2</u>	<u>91165-54604</u>	<u>NS</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
Yes 1. पंचायत की शरयत

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
Yes 1. पंचायत की शरयत की शरयत की शरयत

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

NATIONAL SERVICE SCHEME
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI, SHIMLA-06, H.P.

SURVEY FORM

Dear Resident,
This form is designed to collect information from people of Gramin (rural) village of NSS Unit of G.C. Sanjauji, NSS Unit conducting a survey in your village. The objective of this survey is to understand the current state of various aspects of life in your community to better address your needs and expectations. Your honest feedback will help us identify key issues, evaluate the effectiveness of government schemes, and understand how we can contribute more effectively through our NSS Unit. Please take a few moments to complete this survey. Your response will remain confidential and will be used only for the purpose of improving community services and support.

Name of the volunteer: Pranav Class: B.A. Hons Roll No: 23521063
Village: Dumrai Date: 23/08/24

Name	Age	Gender	Education Level	Contact No.	Ward No. & Ward Member
<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

Are you aware of government schemes available in your village? Yes/No

If yes, please list the schemes you know about:
1. पंचायत की शरयत की शरयत की शरयत

Have you benefited from any of the schemes you mentioned? Yes/No
If yes, which ones? If no, tell us the reason?
1. पंचायत की शरयत की शरयत की शरयत

Signature of the applicant: Pranav
NSS PROGRAMS OFFICER
GOVERNMENT COLLEGE SANJAUJI
SHIMLA-06, H.P.

